

प्रेस नोट

दिनांक 23.11.2020

सराहनीय कार्य थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी

10 लाख 52 हजार रुपये की 154 पेटियों में 1366 ली0 हरियाणा मॉडल की McDowells No.1 अवैध अंग्रेजी शराब बरामद ।

जनपद अमेठी में अवैध अपमिश्रित शराब की बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 22.11.2020 को प्र0नि0 राजेश कुमार सिंह थाना जगदीशपुर मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मिश्रौली हाइवे के पास एक भूसा लदी टाटा पिकअप को रोकने का प्रयास किया गया तो वह मुसाफिरखाना हाइवे रोड पर भागने लगा । उ0नि0 उमेश कुमार मिश्र चौकी प्रभारी वारिसगंज को आगे से घेराबंदी करने हेतु अवगत कराया गया । भूसा लदी पिकअप अनियंत्रित होकर ग्राम गुरुगंज के पास तेज कुमार यादव के बाग में पलट गई । जिसमें से 03 व्यक्ति निकलकर झाड़ियों की तरफ भागने में सफल रहे । मौके पर टाटा पिकअप यूपी 20 टी 1914 जो पलट गई थी, जिसमें से 01 अदद पाकेट डायरी, पिकअप की आरसी, बीमा की छायाप्रति तथा भारी मात्रा में हरियाणा माडल की McDowells No.1 अवैध अंग्रेजी शराब 44 पेटि में 750 एमएल की 528 बोतल करीब 396 ली0, 56 पेटि में 375 एमएल की 1344 शीशी में 504 ली0, व 54 पेटि में 180 एमएल की शीशी में 2592 शीशी में 466 ली0 कुल 1366 ली0 अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई । पाकेट डायरी व आरसी से जसविन्दर सिंह, अमीरुद्दीन व 01 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया । बरामद पिकअप के गाड़ी संख्या व चेसिस नं0 जांच करने पर फर्जी होना पाया गया । थाना जगदीशपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

फरार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. जसविन्दर सिंह पुत्र अज्ञात नि0 अज्ञात जनपद अमेठी ।
2. अमीरुद्दीन पुत्र छोटे लाल नि0 ईनामपुरा हल्दौर रुरल हल्दौर जनपद बिजनौर ।
3. अज्ञात

बरामदगी- (कुल कीमत लगभग 10 लाख 52 हजार रुपये)

- 44 पेटि में 750 एमएल की 528 बोतल करीब 396 ली0, 56 पेटि में 375 एमएल की 1344 शीशी में 504 ली0, व 54 पेटि में 180 एमएल की शीशी में 2592 शीशी में 466 ली0 कुल **1366 ली0 हरियाणा माडल की McDowells No.1 अवैध अंग्रेजी शराब ।**

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. मु0अ0सं0 410/20 धारा 419,420,467,468,471 भादवि व 60,63,72 आबकारी एक्ट थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
2. 01 अदद टाटा पिकअप यूपी 20 टी 1914 (सीज) ।

बरामदगी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 राजेश कुमार सिंह थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 उमेश कुमार मिश्र चौकी प्रभारी वारिसगंज थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
3. हे0का0 राम अनुज मिश्र चौकी वारिसगंज थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
4. का0 अरुण कुमार थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
5. का0 भानू प्रताप सिंह थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी । ।
6. का0 वली अहमद थाना चौकी वारिसगंज थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
7. का0 अखिलेश कुमार चौकी वारिसगंज थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
8. का0 रामनयन चौधारी चौकी वारिसगंज थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।